

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 (कार्तिक 9, 1936)

क्र. 20335-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल:
दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.